



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]
No. 174]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2012/माघ 11, 1933
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2012/MAGHA 11, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2012

का.आ. 199(अ).—यतः, मै. जी.पी. रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड ने हरियाणा राज्य के ग्राम बहरामपुर, बलोला एवं बंधवारी, तहसील सोहना, जिला गुड़गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2005 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3043(अ), दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 36.3744 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. जी. पी. रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में 0.3919 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.3919 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 36.7663 हेक्टेयर हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्रम. सं.	ग्राम का नाम	खेवट/खाता संख्या	आयत संख्या	किला संख्या	क्षेत्रफल	
					के	एम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बहरामपुर	139/204	27	25/2	5	3
2.	बंधवारी	16/16	32	15	2	12
कुल					7	15
कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)					0.969	
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)					0.3919	
उपर्युक्त जोड़ के					(36.3744+0.3919)	
पश्चात् एसईजेड का					= 36.7663	
नया कुल क्षेत्रफल					हेक्टेयर	

[फा सं. एफ. 1/3/2007-एसईजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2012

S.O. 199(E).—Whereas, M/s. G.P. Realtors Private Limited had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Beharampur, Balola and Bandhwari, Tehsil-Sohna, District Gurgaon in the State of Haryana;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified the area of 36.3744 hectares at above Special Economic Zone *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 3043(E), dated 24th December, 2010;

And whereas, M/s. G.P. Realtors Private Limited has now proposed to include an area of 0.3919 hectares to the above Special Economic Zone and the Central Government has given its acceptance to the proposal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies an area of 0.3919 hectares as part of the above Special Economic Zone, thereby making total area of the Special Economic Zone as 36.7663 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the Table, namely :—

TABLE

SL No.	Name of the Village	Khewat/Khata Number	Rectangle Number	Killa Number	Area	
					K	M
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Beharampur	139/204	27	25/2	5	3
2.	Bandwari	16/16	32	15	2	12
Total					7	15
Net area (in acres)					0.969	
Net area (in hectares)					0.3919	
New Total Area of SEZ after above addition					(36.3744+0.3919) = 36.7663 hectares	

[F.No. F. 1/3/2007-SEZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.